



फ्लिपकार्ट ने अपनी सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हरियाणा में दो बड़े आपूर्ति केंद्रों का किया उद्घाटन

- हरियाणा के फारुख नगर में लगभग 9 लाख वर्ग फीट में खुले वेयरहाउसिंग स्पेस के साथ सप्लाई चेन इंफ्रस्ट्रक्चर में विस्तार
- उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ, क्षेत्र के एमएसएमई, विक्रेताओं और दस्तकारों के लिए बाजार सुलभ बनाना मकसद
- आपूर्ति केंद्रों के आने से इस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार के 5,000 अवसरों का सृजन होगा

गुरुग्राम - 14 जनवरी, 2020: भारत के स्वदेशी ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने आज हरियाणा के फारुखनगर में अपने दो सबसे बड़े आपूर्ति केंद्रों (एफसी) का उद्घाटन कर अपनी आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत बनाने की घोषणा की।

नौ लाख वर्ग फीट में फैले ये आपूर्ति केंद्र, फ्लिपकार्ट को उत्तर भारत में अपने सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने में मदद करेंगे। इन आपूर्ति केंद्रों की मदद से, फ्लिपकार्ट हरियाणा में सैंकड़ों विक्रेताओं तथा एमएसएमई द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले लार्ज एवं नॉन-लार्ज (फर्नीचर और बड़े एप्लायंसेज़ सहित) श्रेणियों के उत्पादों की डिलीवरी एवं आपूर्ति श्रृंखला को समर्थन देने की कंपनी की क्षमता में विस्तार कर उन्हें देशभर के बाजारों तक पहुंच का लाभ दिलाएगी। साथ ही, इन इन केंद्रों के चलते फ्लिपकार्ट की देश में अधिकाधिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने की क्षमता भी बढ़ेगी।

इन दो आपूर्ति केंद्रों को मिलाकर, फ्लिपकार्ट के पास अब हरियाणा में कुल 12 परिसंपत्तियां हैं, जिनमें लार्ज एप्लायंसेज़ की आपूर्ति श्रृंखला, नॉन-लार्ज (मोबाइल, एप्रैल सहित), ग्राॅसरी और फर्नीचर शामिल हैं। राज्य में फ्लिपकार्ट की सभी परिसंपत्तियों की कुल क्षमता 20 लाख वर्ग फीट से अधिक हो चुकी है। ये परिसंपत्तियां राज्य में बिनौला, बिलासपुर और लुहारी और बल्लभगढ़ समेत अन्य कई क्षेत्रों में फैली हैं। पिछले त्योहारी सीज़न के दौरान, हरियाणा में फ्लिपकार्ट के आपूर्ति केंद्रों ने, देशभर से प्राप्त कुल ऑर्डर में से 40 प्रतिशत तक की आपूर्ति की जिससे भौगोलिक दृष्टि से इनकी उपयोगिता के साथ-साथ लॉजिस्टिक के लिहाज़ से राज्य के महत्व की पुष्टि हुई है।

हरियाणा में फ्लिपकार्ट के नए निवेश से लगभग 5,000 रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे जिनमें महिलाओं तथा विशेष क्षमताओं वाले लोगों के लिए भी रोजगार शामिल हैं। हरियाणा में फिलहाल कंपनी में 10,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं जबकि हज़ारों



लोगों को कंपनी के चलते परोक्ष रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के कौशल विकास, कैरियर में आगे बढ़ने और प्रगति के अवसरों को बेहतर बनाने के मकसद से उन्हें आपूर्ति श्रृंखला एवं डिलीवरी संबंधी प्रशिक्षण दिलाने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की लॉजिस्टिक्स स्किल सैक्टर काउंसिल के साथ भी भागीदारी की है।

हरियाणा में दो सबसे बड़े आपूर्ति केंद्रों के उद्घाटन अवसर पर **फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अमितेश झा** ने कहा, "फ्लिपकार्ट द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखला पर निरंतर निवेश के परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं के अनुभवों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और यही वजह है कि ई-कॉमर्स के प्रति उनका भरोसा भी बढ़ा है। फ्लिपकार्ट की आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क देश में मौजूद सबसे मजबूत नेटवर्कों में से है जिसके बलबूते यह हर महीने 40 मिलियन से अधिक डिलीवरी करता है और देशभर में इससे 120,000 से कर्मचारी जुड़े हैं। इन दो सुविधाओं को अपने नेटवर्क में जोड़ने के साथ ही हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत बना रहे हैं ताकि एमएसएमई, स्थानीय निर्माताओं के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार हो सके जिसके चलते स्थानीय स्तर पर स्तरीय रोज़गार के नए अवसर भी पैदा हों।"

फ्लिपकार्ट के बारे में

फ्लिपकार्ट ग्रुप देश के अग्रणी डिजिटल कॉमर्स निकायों में से है जिसकी समूह कंपनियों में फ्लिपकार्ट, मित्रा, जबॉंग और फोनपे शामिल हैं। 2007 में स्थापित, फ्लिपकार्ट ने लाखों उपभोक्ताओं, विक्रेताओं, कारोबारियों और छोटे कारोबारों को देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स क्रांति से जोड़ा है। 200 मिलियन से अधिक पंजीकृत विक्रेताओं के साथ फ्लिपकार्ट 80 से अधिक श्रेणियों में 150 मिलियन से ज्यादा उत्पादों की पेशकश करता है। फ्लिपकार्ट को कैश ऑन डिलिवरी, नो कॉस्ट ईएमआई और आसान रिटर्न जैसे ग्राहक केंद्रित सेवाओं के लिए उद्योग में पुरोधात्मक पेशकश के लिए जाना जाता है। इसने ऑनलाइन खरीदारी को लाखों ग्राहकों की आसान पहुंच में लाकर उसे किफायती बनाया है। मित्रा तथा जबॉंग के साथ मिलकर, जो कि ऑनलाइन फैशन मार्केट में प्रमुख स्थान रखती हैं, फ्लिपकार्ट ग्रुप टेक्नोलॉजी के जरिए भारत में कॉमर्स की दुनिया में बदलाव ला रहा है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: media@flipkart.com